



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 2001/अग्राहायण 20, 1923

No. 619]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 2001/AGRAHAYANA 20, 1923

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2001

सा.का.वि. 896(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से; जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं।

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 2001 है;
- (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में—
- (क) नियम 55 की सारणी में, प्रद. सख्यांक 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
" 16 परोसने के लिए तैयार प्रेष	... अर्जन्ताइड या	70
	बेंजोइक अम्ल	120;

(ख) परिशिष्ट ख, में—

(i) मद क-32 में;

(क) खंड 3 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“3क. पैकेज सामग्री—यह भा मा : 10146 के अनुरूप पालीएथिलीन (पी.ई.) या भा मा : 10151 के अनुरूप पालिथिनायल क्लोराइड (पी. वी. सी.) या भा. मा : 12252 के अनुरूप पालीएल्काईलीन टैरीफथालेट (पी. ई. टी और पी. बी. टी.) या आई. एस : 10910 के अनुरूप पाली प्रोपाएलीन या खाद्य श्रेणी पाली कार्बोनेट से बनाई गई स्वच्छ, जिवाणुरहित, रंगहीन पारदर्शी और गड़बड़ न की जा सकने वाली बोतलों/आद्यानों में या जिवाणुरहित ऐसी कांच की बोतलों में जो जल के संभावित अपमिश्रण या संदूषण का निवारण करने के लिए उपयुक्त हो, पैक किया जाएगा।

प्लास्टिक मूल की सभी पैकेजिंग सामग्रियां संपूर्ण अभिगामी और रंजक अभिगामी सीमाओं के अनुरूप होंगी।”

(ख) सारणी के स्तम्भ (4) में—

- (i) खनिज तेल से संबंधित क्रम संख्यांक 10 के सामने स्तम्भ (3) में “अनभिज्ञेय” शब्द के स्थान पर “अविद्यमान” शब्द रखा जाएगा;
- (ii) क्रम संख्यांक 11 के सामने “फैलोनिक योगिक (सी. एच. ओ. एच) के रूप में” से संबंधित स्तम्भ (3) में “अनभिज्ञेय” शब्द के स्थान पर “अविद्यमान” शब्द रखा जाएगा;
- (iii) क्रम संख्यांक 30 के सामने “साइनाइड (सी. एन. के रूप में)” से संबंधित स्तम्भ 3 में “0.07 मि. ग्राम/लीटर से अधिक नहीं” शब्दों के स्थान पर “अविद्यमान” शब्द रखा जाएगा;
- (iv) क्रम संख्यांक 39 के सामने “बीटा सक्रियता” से संबंधित स्तम्भ (3) में “पिकोक्व्यूरी/लीटर (पी.सी.आई)” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर “बेक्व्यूरेल/लीटर (बीक्यू)” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) मद क-33 में—

(क) दूसरे पैरा में “स्वच्छ, जिवाणुरहित” शब्दों के स्थान पर “साफ, स्वच्छ” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) तीसरे पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा अर्थात् :—

“प्लास्टिक मूल की सभी पैकेजिंग सामग्रियां संपूर्ण अभिगामी और रंजक अभिगामी सीमाओं के अनुरूप होंगी।”

(ग) सारणी में;

- (i) क्रम संख्यांक 10 के सामने, “खनिज तेल” से संबंधित स्तम्भ (3) में “0.01 मि. ग्रा./लीटर से अधिक नहीं” शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर “अविद्यमान” शब्द रखा जाएगा;
- (ii) क्रम संख्यांक 11 के सामने “फेनोलिक योगिक (सी. एच. ओ. एच) के रूप में” से संबंधित स्तम्भ (3) में “0.001 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “अविद्यमान” शब्द रखा जाएगा;
- (iii) क्रम संख्यांक 30 के सामने “साइनाइड (सी.एन. के रूप में)” से संबंधित स्तम्भ (3) में “0.05 मि. ग्रा./लीटर से अधिक नहीं” शब्द, अंक और अक्षरों के स्थान पर “अविद्यमान” शब्द रखा जाएगा;
- (iv) क्रम संख्यांक 42 के सामने “बीटा सक्रियता” से संबंधित स्तम्भ (3) में “पिकोक्व्यूरी/लीटर (पीसीआई)” शब्द और अक्षरों के स्थान पर “बेक्व्यूरेल/लीटर (बीक्यू)” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

[सं. पी-15014/7/2001 पी. एच. (खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

नोट : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 पहले दिनांक 12-9-1955 का.नि.आ. 2105 के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3 में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार सा.का.नि. 670(अ) दिनांक 17-9-2001 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2001

G.S.R. 896(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government after consultation with the Central Committee for Food Standards proposes to make, in exercise of the power conferred by the sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), is hereby published as required by the said sub-section of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of this Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhavan, New Delhi-110011.

The objection and suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period specified above, will be considered by the Central Government;

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (..... Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955,—

(a) in rule 55, in the table, for item no. 16 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
" 16. Ready to serve beverages	Sulphur Dioxide or Benzoic Acid	70 120";

(b) in Appendix B,—

(i) in item A-32;

(a) after clause 3, the following clause shall be inserted, namely :—

"3A. Packaging materials:— It shall be packed in clean, hygienic, colourless, transparent and tamperproof bottles/containers made of polyethylene (PE) conforming to IS: 10146 or polyvinyl chloride (PVC) conforming to IS: 10151 or polyalkylene terephthalate (PET and PBT) conforming to IS: 12252 or polypropylene conforming to IS: 10910 or foodgrade polycarbonate or sterile glass bottles suitable for preventing possible adulteration or contamination of the water.

All packaging materials of plastic origin shall pass the overall migration and colour migration limits";

(b) in clause 4, in the table :—

(i) against Sl. No. 10 relating to Mineral oil, in column (3), for the words "Not detectable", the word "absent" shall be substituted;

(ii) against Sl. No. 11, relating to 'Phenolic compounds (as C_6H_5OH)' in column (3), for the words "Not detectable", the word "absent" shall be substituted;

(iii) against Sl. No. 30, relating to 'Cyanide (as CN)' in column (3), for the words, figures and letters "Not more than 0.07 mg / litre" the word "absent" shall be substituted;

(iv) against Sl. No. 39, relating to "Beta" activity in column (3), the words and letters "pico curie/litre (pCi)" the words and letters "Bacquerel/litre (Bq)" shall be substituted;

(ii) in item A-33,—

(a) in the first line of the second paragraph for the word "sterile" the word "hygienic", shall be substituted;

(b) for the third paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"All Packaging material of plastic origin shall pass the overall migration and colour migration limits";

(c) in the Table;

(i) against Sl. No. 10, relating to Mineral oil, in column (3), for the words, figures and letters "Not more than 0.01 mg/litre", the word "absent" shall be substituted;

(ii) against Sl. No. 11, relating to 'Phenolic Compounds (as C_6H_5OH)' in column (3), for the words, figures and letters "Not more than 0.001 mg/litre" the word "absent" shall be substituted;

(iii) against Sl. No. 30, relating to "Cynide (as CN)", in column (3), for the words, figures and letters "Not more than 0.05 mg/litre" the word "absent" shall be substituted;

(iv) against Sl. No. 42 relating to "Beta" activity, in column (3), for the words and letters "pico curie/litre (pCi)", the words and letters "Bacquerel/litre (Bq)" shall be substituted;

[No. P-15014/7/2001-PH (Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

Note :— The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of Gazette of India vide S.R.O. 2105 dated 12-9-1955 and were last amended vide G.S.R. No. 670(E), dated 17-9-01.

